



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 1232) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2024

सं0 03/नमामि गंगे-02-07/2024-9995/नंवि0 एवं आंवि0  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर 2024

विषय:- नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत दाउदनगर में इन्टरसेप्शन एण्ड डार्डर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 42,25,28,000/- (बयालिस करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रु० 2,31,26,400/- (दो करोड़ एकतीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) अर्थात कुल रु० 44,56,54,400/- (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत सभी घरों/प्रतिष्ठानों से आने वाले सिवेज को ट्रीटमेंट उपरांत प्रवाह किया जाना है ताकि गंगा नदी की सहायक सोन नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इन्टरसेप्शन एण्ड डार्डर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक Pr-22014/11/2022/NMCG, दिनांक 24.01.2023 द्वारा कुल लागत व्यय 42,25,28,000/- रुपये (बयालिस करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार रुपये मात्र) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेज की रूप में 2,31,26,400/- रुपये (दो करोड़ एकतीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) देय है। नमामि गंगे योजनान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद इन्टरसेप्शन एण्ड डार्डर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना अनुमानित राशि (सेन्टेज सहित) रु० 44,56,54,400/- रुपये (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र) पर प्रस्तावित है। दाउदनगर इन्टरसेप्शन एण्ड डार्डर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना के क्रियान्वयन एन०एम०सी०जी० से स्वीकृति के शर्तों के अधीन किया जाएगा। उक्त परियोजना का प्रमुख घटक निम्नवत् है:-

क्र०सं०	मुख्य घटक	संख्या
1.	01 अद्द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास (क्षमता 10.5 MLD)	10.5 MLD
2.	नाला टैपिंग	01 अद्द
3.	इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन	862 मी०
4.	संचालन एवं रख-रखाव	15 वर्ष

2. दाउदनगर औरंगाबाद जिला का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो सोन नदी के किनारे अवस्थित है। सोन नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी या इसके सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के अनट्रीटेड सिवेज को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दाउदनगर में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से दाउदनगर शहर के लगभग सभी घरों को लाभ मिलेगा। दाउदनगर शहर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सिवेज को इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन के जरिये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सिवेज को शोधित कर पुनः उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में दाउदनगर में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण यहाँ से निकलने वाले सिवेज को सीधे सोन नदी में प्रवाहित किया जाता है। दाउदनगर शहर में 01 अद्द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। इस योजना को कुल 24 महिनो में पूरा किया जाना है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना है।

3. दाउदनगर में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 100% राशि 42,25,28,000/- रुपये (ब्यालिस करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार रुपये मात्र) तथा बिहार सरकार, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल 2,31,26,400/- रुपये (दो करोड़ इक्तीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रकार कुल राशि (सेन्टेज सहित) रु० 44,56,54,400/- रुपये (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना		वित्तीय वर्ष में कुल राशि
		केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेन्टेज राशि	
1	2	3	4	5
1	2024-2025	100,000,000.00	7,000,000.00	107,000,000.00
2	2025-2026	105,684,000.00	5,284,200.00	110,968,200.00
3	2026-2027	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
4	2027-2028	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
5	2028-2029	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
6	2029-2030	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
7	2030-2031	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
8	2031-2032	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
9	2032-2033	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
10	2033-2034	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
11	2034-2035	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
12	2035-2036	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
13	2036-2037	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
14	2037-2038	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना		वित्तीय वर्ष में कुल राशि
		केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेन्टेज राशि	
1	2	3	4	5
15	2038-2039	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
16	2039-2040	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
17	2040-2041	14,456,266.67	722,813.33	15,179,080.00
कुल राशि		42,25,28,000.00	2,31,26,400.00	44,56,54,400.00

4. संचालन एवं रख-रखाव:- इस परियोजना का रख-रखाव (संचालन एवं रख-रखाव) 15 वर्ष तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा इसका व्यय परियोजना से होगा। परियोजना की समाप्ति अवधि के पश्चात् रख-रखाव (संचालन एवं रख-रखाव) का व्यय राज्य सरकार/नगर परिषद, दाउदनगर द्वारा वहन किया जायेगा। दाउदनगर इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बुडको राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

5. परियोजना के अनुमानित लागत का 100% वहन नमामि गंगे योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, जो भारत सरकार द्वारा सीधे बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सेंटेज मद की राशि का वहन किया जायेगा। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल रु० 2,31,26,400/- रुपये (दो करोड़ इक्तीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि रु० 44,56,54,400/-रुपये (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। इस योजना में राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा :-

- मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215021060302 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0305-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027960305 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0303-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027890303 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

6. अतः उक्त के आलोक में नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत दाउदनगर में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 42,25,28,000/- (बयालिस करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रु० 2,31,26,400/- (दो करोड़ एकतीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 44,56,54,400/- (चौवालीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त कंडिका-06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.12.2024 की बैठक में मद सं० 34 में स्वीकृति दी गई है।  
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
अभय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1232-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>